

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली



क्रम संख्या

5122

काल नं०

2000/11/16

खण्ड

नीति प्रदीप

श्रीमन्महाराजाधिराज पश्चिमदेशाधिकारीजव्वान

लफुनंद गवर्नर बहादुर की आज्ञानुसार

श्रीधुत साहिब डैरकूर आफ पबलिक

इन्स्ट्रक्शन् बहादुर मुमालिक

म्हारी व भुमाली की

आज्ञासे

पश्चिमदेशीय स्त्रियों की पारशालाओं की

विद्यार्थिनियों के लिये

बरेलीतत्वबोधिनी भभा में तद् जीवुल अरबलाक से

हिन्दी भाषा में उल्टा हा कर संग्रह हुआ और

बरेली

रहेल खंड लिखेरी सुमाहरी के रूपे खाने में

5/1/1900

1001 00/1000

10/10/10/10

00/10/10/100000

रूपागया

सन १८८८ ईसवी

{ चौथी बार १०००

{ मानफौजिल्द }

नीति प्रदीप भूमिका

यह बात जो मनुष्य वर्णन करते हैं कि किसी समय
सुख और दुःख ऐसे कारणों से उत्पन्न होते हैं कि
जो मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हैं सत्य है परन्तु
हम कहते हैं कि सम्पूर्ण मनुष्यों का आराज उन्हीं
के उद्योग और शील स्वभाव पर नियत है
प्रयोजन का प्रसन्न के संग्रह करने का यह है कि
सुख अन्वेष्य वालों को भले प्रकार
ज्ञान हो जावे कि आराम बहुधा उन्हीं
के श्रेष्ठ चाल चलन का फल है
और ऐसा उपदेश दिया जाय कि वे अपनी उत्तम
दशा की उन्नाति इस प्रकार करें कि संतोष और
सुख जो प्रत्येक मनुष्य की मित्र और ज्यन्ताधिक

प्राप्त भी हो सकता है हाथ से न जाता रहे इस बात
 पर सब मनुष्यों की सम्मति हो चुकी है कि सुशीलता ही
 आनन्द का निस्संदेह आदि मूल है परन्तु शोक की
 बात यह है कि उनको यह क्वचन याद नहीं रहा फिर
 अब विचारना चाहिये कि यह सुशीलता किस प्रकार
 प्राप्त होती है ॥ प्रघट हो कि यह केवल आचार और
 व्यवहार के शुद्ध करने से प्राप्त होती है शिक्षा का
 यह बड़ा लाभ जाना गया कि वह शिष्य के स्वभाव
 को परिपक्व अवस्था को पहुँचा देती है अर्थात्
 नवीन विद्यार्थियों को सिखाती है कि अपने समस्त
 कार्यव्यवहार में सच्चे और धार्मिक और पवित्र हृदय
 हो जावें और इस प्रकार से साधु भाव को ग्रहण
 करें कि परमेश्वर के निकट भी विश्वास योग्य बन
 जावें जैसा कि कोई सदैव सत्य वादी है तो सम्पूर्ण
 मनुष्य उस की बात को अंगीकार कर लेते हैं और
 उसमें कुछ सन्देह नहीं करते ॥ इसी प्रकार जो

कोई मनुष्यों के साथ अवसर पर दया करता है
 उपाधि और कपट नहीं करता तो उस के परोसी
 उसको सुशील और साधु बूनि और बुद्धिचारी
 जाना करते हैं

पहिला पाठ

स्वयं पालन

हे बालको जितनी तुम को परोसा हो चुकी है उस
 से यह बात सहजमें निश्चय से ज्ञात हो जायगी
 कि कोई वस्तु तुम्हारे आवश्यकता अथवा सुख और
 आराम की बिना परिश्रम किये प्राप्त नहीं हो सकती
 यद्यपि तुम्हारी अभी युवा अवस्था है परन्तु यह
 बात तो तुम्हारी दृष्टि में समागई होगी ^{कि} तुम्हारे माता
 पिता भी बिना परिश्रम के द्रव्य उपार्जन करते
 कि जिस से आवश्यक वस्तु माल लेते हैं देखो वा

लकपन से तुम्हारे पिता ने तुम को भोजन वस्त्र से पालन किया और यथा शक्ति विद्या अध्ययन कराई और अपने हृदय का अत्यंत स्नेह तुम्हारे प्रति अर्पित किया इस लिये कि तुम अपने लौकिक व्यवहार में प्रतिष्ठा प्राप्त करो और तुम इस बात पर ध्यान करके कि तुम्हारे पिता की ओर से इस कार्य में परिश्रम और द्रव्य बहुत रक्की हो चुका है उससे जियादे आसा रखना अनुचित है मिवाय इसके कि वह तुम्हारे हक में श्रेष्ठ समति और सत उपदेश करे। जब तुम ईश्वर की कृपा से ऐसे योग्य हुंय तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पालनान करे तो तुम को उचित है कि अपने उद्योग से अपना पालन पोषण करलो यह बात तुम को असह्य नहीं मानना चाहिये तुम्हें यह कर्तव्य है कि अपने निर्वाह के लिये चिंता करलो क्या आश्चर्य्य है कि जिस प्रकार संपूर्ण स्थावर जंगम सृष्टि का हाल है वैसा ही तुम्हारा भी हाल होता और संसार की उत्पत्तिके

अनुसार साधारण यह रीति है कि संपूर्ण जीवों के
 बच्चों को जब चलने फिरने की शक्ति हो जाती है
 फिर उनको अपने माता पिता के संग की आव-
 श्यकता नहीं रहती है ॥ इसी रीति से संपूर्ण लोगों
 को गोष्ठी से यही मार्ग और यही प्रचार मनुष्यों
 में भी वर्तना योग्य है कि वे भी अपने लड़कों को
 समय की ऊंच नीच जानने के वास्ते और जगदृष्टी
 होने के लिये घर से भेज दिया करें और इसी प्रकार
 वालकों को भी उचित है कि अपने ही स्वाभाविक
 उद्योग से अपने उदर पूरा करने की चिंता करें
 इस के विपरीत जो २ वृत्तों हमारे नेत्रों से देखने
 में आते हैं उन से ज्ञात होता है कि मनुष्य को
 सत्त्वभाव के सिखाने वाली शिक्षा की ओर जो
 परमेश्वर के यहाँ से हमारे मार्ग जताने को प्रका-
 श हुई है बहुत कम ध्यान है हे वालकों तुम्हें
 इस अवस्था में उचित है कि अपनी सारी हिम्मत को

इसी प्रबंध के विचार में लगाते रहो कि हम दिन
 दूसरे की सहायता अपना पालन पोषण करें। जब
 तुम को परमेश्वर ने सत् असत् जानने की बुद्धि दी
 और परिश्रम करने के लिये हाथ पांव शरीर अनुग्रह
 करदे दिये फिर किसलिये अपने पालन पोषण में अन्य
 पुरुषों की सहायता चाहते हो हे बालको तुम यह न जा-
 नो कि हमारी इच्छा यह है कि तुम को सहायक
 और मित्र बिना अकेला छोड़ दें क्योंकि तुम्हारे अ-
 केले छोड़ने से हम को यह सन्देह है कि तुम्हारे
 सत्त्वभाव में हानि पड़ेगी और लिष्ट कल्पना करनी
 होगी मुख्य प्रयोजन यह है कि तुम अपना ध्यान
 किसी कार्य अथवा उद्योग में लगाओ और जिस काम
 वा उद्योग को सीगवाना चाहो उसकी और चतुराई श्रद्धा और
 धीरज में सजको लगाओ यह सत्य है कि तुम पहले ही पहले
 वा कुछ दिनों इस प्रयत्न नहीं होगे कि अपनी पालना अपने
 आप कर सको परंतु अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारे लिये

यह मार्ग सुंदर फल पाने का है ॥ हर एक मनुष्य को आनंद होता जो उस को यह बात मालम होती कि जिस संपत्ति को वह प्राप्त करता है वह उसी के हाथ के श्रम से उत्पन्न होती है ॥ यह कहावत परंपरा से चली आती है कि अपनी मिहनत का एक रूपया मित्रों के बीस रुपये के बराबर होता है और जो द्रव्य बिना श्रम किये प्राप्त होता है उस को मनुष्य कुछ समझते हैं परन्तु जो द्रव्य महा परिश्रम से मिलता है उस की प्रतिष्ठा अत्यंत होती है

दूसरा पाठ

उद्यम-अंगीकार करना

यह बात कुछ कठिन नहीं प्रकाशित होती कि नवीन आविष्कारों को पढ़ना छोड़े पीछे कौन कौनसी बातें कौन कौन सा उद्यम सिरवाना चाहिये क्योंकि काम और उद्यम सिरवने के प्रथम यह बात

उनको प्राप्त करनी उचित है कि जिससे कार्य
 व्यवहारमें स्वाभाविक परिश्रमी हो जावें और प्रयो-
 जन की मित्रताई से दूर रहें किसलिये कि यदि
 परीक्षा की रीति से वे इन कामों के स्वाभाविक हो
 गये तो अन्य लाभ जो उस के आधीन हैं वे सब
 आप से आप प्राप्त हो जायेंगे अच्छी तरह विचार
 कालो कि संपत्ति और यश केवल श्रम और सच्ची-
 टी हीके कारण से प्राप्त होता है और हमारे प्रकार
 के उद्यमों में इन दोनों का अभ्यास होना संभव है
 प्रथमदाल के अनुसार यह निश्चय है कि कोई २
 लड़के मुख्य २ कामों में बुद्धि वानी रखते हैं जैसा कि
 एक की बुद्धि (जैरि सकील) अर्थात् यंत्र विद्या में प्र-
 वीण दूसरे को सौदगरी की अभिलाषा और तीसरे
 को विद्या प्राप्ति करने की इच्छा होती है यह स्वाभा-
 विकी इच्छा मुख्य २ कामों की और इसी प्रकार
 की श्रमा २ रुचि भी मुख्य को और दूसरे माती

पिता को उद्यम अंगीकार करने के लिये अवश्य प्रवृत्ति करेगी

प्रयोजन बनाने इस पुस्तक से सिवाय इस के और कुछ नहीं है कि तुम्हारे विचार के लिये कुछ संकेत लिख दिये जायं। तुमको कर्तव्य है कि प्रथम तुम अपने को ऐसे उद्यममें लगाओ कि जिस का अभ्यास और लाभ अधिक और निश्चल होय और उन उद्यमों से बचते रहो कि जिनके कारण तुमको एक जगह और एक देशमें रहना होय उस उद्यम को सुंदर जानना चाहिये कि जिस देश और जिस पृथ्वीमें किसी संयोग से पहुँचो वह तुम्हारे पालन का कारण हो। जो ऐसा उद्यम अंगीकार करोगे कि जिसकी सम्पूर्ण मनुष्यों को आवश्यकता है तो कभी तुम घोरवान् स्वप्नोगे क्योंकि जितने लाभ के उद्यम हैं उनकी दिन २ प्रति वृद्धि होती है और जो उसके विपरीत हैं उन की कमी होती जाती है।

तीसरा पाठ तत्परता

हम विचारते हैं कि परिणाम को तुम चौदह १४ या पंद्रह १५ वर्ष की अवस्था में किसी उद्यम में लगा दिये और युवा अवस्थाकाल में मग्न हो ॥

यद्यपि तुम आज कल नौकर हो परन्तु नौकरी करने से यह फल प्राप्त होय तो अच्छा है कि कालान्तर में तुमको योग्यता मालिक हो जानकी हो जाय सेवा करने के दिनों में कभी-तुमको ऐसे काम करने पड़े कि जो असह्य वा तुम्हारे समीप तुच्छ या चित्त की प्रसन्नता के योग्य न हों परंतु तभी तुमको उचित है कि उनके कारण में अपना परिश्रम और प्रसन्नता प्रघट करो

इसी प्रकार जिस काम की आज्ञा तुमको हो उस के करने में तुम्हारी प्रसन्नता प्रघट हो किसलिये कि स्वामी को सचोटी और चौकसी के

सिवाय जितनी काम में तत्परता मनोहर है ऐसी
 और कोई वस्तु वांछित नहीं और यह भी जानते
 रहो कि जो तुम्हारे कार्य में ढील पाई जायगी तो
 मनुष्य तुम को मरगा जन्मों और जो तुम्हारे काम
 में स्वैरी और वफादारी और तत्परता प्रघट
 होगी जो तुम्हारी भलाई में कुछ भी संदेह नहीं
 बहुधा मनुष्यों से उलाहने सुने जाते हैं कि मनुष्यों
 को नौकरी नहीं मिलती तो निश्चय था कि इस
 विवाद में उन का कहना सच्चा होता परंतु इस में
 कुछ संशय नहीं है कि नौकरों और नायबों को
 जो अच्छे स्वामी मिलने सहज हैं परन्तु स्वामियों
 को सच्चे नौकर या नायब मिलने बहुत कठिन हैं

चौथा

पाठ

ज्ञान पहचानवा प्रीति करना

आवश्यक सब कामों में एक उत्तम काम नवीन
अवस्था वालों का यह है कि वे मित्रताई करने में प
रिश्रम और रवोज करें इसलिये कि इस दुनियाँ व
हुधा जहाँ आदमी अपने अपने पालन का आश्रय
रखते हैं वहाँ बहुत सोंको मित्रताई पैदा करनी
मनसे अच्छी मालूम होती है परन्तु उनको यह
सावधानी रखनी जरूर है कि वाजे मित्रता ऐसे विपदा
सकेलिये कहते हैं कि हमारे साथ परिश्रम करने
को अपनी आवश्यकता के सम य प्राप्त होते हैं और
वाजे मित्र ऐसे होते हैं जो केवल दो तरफ़ के मन की
खुशीकेलिये आप से आप हमारे संग रहना चाहते
हैं

दृष्टान्त

बहुत से मतलबी मित्र और थोड़े से संच मित्र

प्रयोजन इसका यह है कि नवीन अवस्था वालों
 को आवश्यक है कि बहुत से ज्ञान पहचान करें
 और छोड़े मित्र करें ॥ यह बात प्रघट है कि आ-
 दमी की वृद्ध अवस्था में कुक्षर मित्रों की सहाय-
 ता और उपकार काम आते हैं और जब अपने मित्र
 के साथ होता है तो कार्य में और बोलने में बहुत
 रस और धीरज दिखता है। परन्तु यह भाग्यवानी
 स्थिर स्वभाव वालों की है कि जो अच्छी तरह और
 श्रुता से आप ही आप मित्रों के पीछे काम करते हैं
 यही मनोरथ प्रत्येक आदमी का होना चाहिये और
 नवीन अवस्था वालों को इस बात से भी ज्ञान होना
 जरूर है कि बहुत से काम अच्छे अच्छे जो ज्ञानी
 लोगों से अपनी जाति की भलाई के लिये प्रघट
 हुए हैं विना सहायता दूसरे के केवल उन्हीं के
 मुख्य स्वभाव से परिणाम को पहुँचे हैं जैसा कि
 ध्रुव सूचक यन्त्र जिस की सुई सदैव उत्तर

को रहती है और नया नया इल्म हयत अर्थात्
 एन्केस का भूगोल खगोल लोका रसम यानी
 हिसाब और प्रकार टीके लगाने सीतला के बनाने
 वाला हर एक इन का एक ही एक आदमी था यह
 दृष्टान्त छोटे दर्जे का है यह मालूम है कि जो
 कोई आदमी संसार के तुच्छ अधिकार से अधिक
 ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा की पदवी को प्राप्त होता है
 सो अपने ही परिश्रम और पुरुषार्थ से वह ऐश्वर्य
 पाता है और जो विचारे कि किस प्रकार इस बड़े
 अधिकार को पहुँचा तो प्रघट हो जावेगा कि उस
 ने स्वार्थी मित्रों से किनारा किया और सत्संग
 लखे मित्रों का किया और यह बात भी भले प्र-
 कार से ज्ञात हो जायगी कि जो उन आदमियों से
 कि जिन से संयोग मिलने का होता था
 अपने कार्य में वह सलाह लिया करता तो
 सब तरह उसी बुरी अवस्था और भूर्खताई

में जो पहिले उसकी थी जस्तूर पड़ा रहता यह निश्चय है कि जब आदमी एकान्त में बैठता है तब हरेक कामके संच विचारमें खूब लवलीन होता है

इसी प्रकार जब किसी काममें कोई मनुष्य अपने विचारकी पूरी सामर्थ्य खर्च करता है तब वह काम अच्छी तरह सिद्ध होता है

यह निर्माद्यता उन नवीन अवस्था बालोंकी है कि जो पहले इस बातसे कि अच्छी तरह अपनी जिंदगीके आरामके कामोंमें चित्त लगावे मनके आनंद और चित्तकी मग्नताके लिये मित्रोंकी संगतिमें बंध जाते हैं

जिनकी संगतिसे चित्त अवश्य ही बहला करता है सिबाय इसके नवीन अवस्था बालोंके मनकी कुटिलाईसे अकेला रहनेकी रोक नहीं होती वरन मित्रोंकी संगतिमें रहना चाहते

हैं। इसी कारण वह समय जिन में उचित है कि संग्रह ऐसी बुद्धि वानी का करें जो पीछे काम आवे व्यर्थ न खोना चाहिये और यह बुद्धि वानी केवल नवीन अवस्था ही के अवकाश के समय में प्राप्त होती है परंतु बड़े क्लेश की बात है कि यह बाल्यावस्था बहुधा मित्रताई के अत्यन्त बुरे कामों में व्यर्थ जाया करती है क्योंकि वे मित्र न तो विद्या के संग्रह में हमारे साथी होते हैं और न किसी अच्छे काम में हमारे सहायक होते हैं पर बहुधा केवल आनन्द और चित्त की मग्नता के लिये हमारे संग्रह आकरते हैं बहुधा मनुष्यों में इस सत्त्वभाव शीघ्र प्राप्त होने वाले का बहुत व्यवहार है जिस के अर्थ यह है कि जो और आदमी करें सी यह भी करें ॥ मानो कि इससे श्रेष्ठ सत्त्वभाव न परमेश्वर ने आकाश से पृथ्वी पर उतारा है और न किसी वैद्य लुकमान और अफ़लातून ने

बनाया है यह इस सत्त्वभाव वाल्यावस्थावालों
 में उस समय संपूर्ण दृढता के साथ प्राप्त होते हैं
 जब वे अपने समान अवस्थावालों की प्रीति रखते हैं
 हे बालको ज्यों ज्यों यह बुरे स्वभाव पीछे उतार और
 घटाव तुम्हारे के होते हैं उसी प्रकार तुमको जल्द
 उपदेश खोटे मार्ग का करते हैं यह बात तुमको निः
 संदेह प्राप्त हो जायगी कि जो कोई अपने समयको
 आनन्दके साथ बिताया चाहता है तो उसे कर्त्तव्य है
 कि इन कामों से बच रहे और इसी प्रकार जिस
 आत्मी का यह मनोरथ हो कि बड़े अधिकार को
 प्राप्त हूँ और अपनी समान अवस्थावालों से अधिक
 प्रतिष्ठा पाऊँ और सब मनुष्यों में सुयश को प्राप्त
 करूँ तो उसी तरह स्वार्थियों से अलग रहना
 कर्त्तव्य होगा ॥

प्रयोजन यह भी है और हे वाल्यावस्थावालो
 तुमको अवश्य कर्त्तव्य है कि अपने तर्क

आलस्य और व्यर्थ मग्नता से बचाते रहो और नीति में भी लिरवा है कि हे मित्रो मन के वेग को रोक कर अपने परिश्रम से अपना पालन करो

पाँचवाँ पाठ

सचैरी

सचैरी एक उत्तम मूल तुम्हारी शिक्षा का है इसी कारण तुम को उचित है कि पूर्ण स्वाद से सचैरी में डूबो हो जाओ और तुम को यह भी करना अवश्य है कि अपने स्वामी के समय और माल को निष्फल मत करो और उन कामों से कि जिनमें छल और दोष हो अपने तर्ई बचाते रहो तुम इस से निःसंदेह जान लो कि चोरी के सिवाय छल और दगा वाजी और बहुत से कामों में भी हो सकती है ॥

जैसे कोई किसी का माल चाहे बल चोरी सेवा

उांके सेन ले परन्तु धोरवा देकर कूठ बोल कर
 वा दगा वाजी करके ले ले तो इसको भी वै ईमा-
 नी कहेंतो इसी कारण कूठ में या धोरवा देने में
 और चोरी करने में कुछ भेद नहीं है और सबों
 का दोष बराबर है परन्तु यह अफसोस है कि
 तुमको बहुत ऐसे आदमियों से संगति पड़ेगी कि
 जो कूठ बोलने वा कपट करने को बुरा नहीं जानते
 हैं

जैसे कि नित्य ऐसे मनुष्यों का हाल कि जो प्रघट
 में भले आदमी जान पड़ते हैं सुन्दर सुन्दर
 स्थानों में रहते और अच्छी अच्छी दुकाने
 रखते हैं यह सुनने में आता है कि वे अपने
 मित्रों और नौकरों और ग्राहकों से लाभ प्राप्त
 करने के लिये हजारों वहाने कर जान बूझ
 कूठ बोला करते हैं

विचारो किस प्रकार बढ कर यह दोष की बात

है माना कि ऐसे अपराधी यद्यपि साहब
 मजिस्ट्रेट के यहां सजा पाने से बच जाते हैं
 परंतु उन के बड़े अपराधी होने में कुछ संदेह नहीं
 परंतु आप ही उन का दिल किसी समय में अवश्य
 उन के इस अधर्मीपन पर पश्चान्ताप धिक्कार का
 लगावेगा देवो प्रतिष्ठा और सच्ची के बदले में
 जिन्हें सुंदर रीति जीवन का कहते हैं यद्यपि कोई
 मुख्य बदला नहीं मिलता परन्तु चित्त का अद्भुत
 आनंद उनके स्वभाव से प्राप्त होता है और इसी
 प्रकार अपराध का मार्ग संपूर्ण लेश से भरा है
 इसी हेतु से जीवन उस जितेंद्रिय का जो कि मन
 के बेगों को अपने बड़े पुरुषार्थ से रोकता है
 यद्यपि कैसे ही लेश में हो परन्तु बड़े आनंद
 से व्यतीत होता है ॥

जो आदमी अपनी पृथक्ता के अनुकूल
 और मार्ग सत्स्वभाव और परमेश्वर की

आज्ञाओं के अनुसार अपने काम किया करता है
 उसे संपन्नता का सुख मिलता है और उस का
 कंधा भार से रहित होता है क्योंकि जानता है कि
 मैं अपने अवश्य कर्तव्य सम्पन्न कर चुका और
 न कोई मुझ को दुरे काम का दोष लगाय सकता है
 और न कोई मेरा वैरी है और जानता है कि
 मेरा चित्त दुरख देने वाले सोच विचारों से
 रहित है कि जिन से संदेह लेश का रहता है
 और जो कारण आनंद प्राप्त करने वाले पुरुषार्थ
 के मार्ग को रोकने के हों तो

सच है कि आनंद के जियदे करने वाले
 इन मनोरथों से एक प्रसन्नता प्राप्त होती है
 जो द्रव्य के सुख से बढकर है

सब प्रकार जिन वाल्यावस्था वालों को
 यह अभिलाष हो कि

विश्वास योग्यता और रक्षणी और प्र-

सन्नता से अपनी अवस्था को व्यतीत करें उन्हें कर्तव्य है कि अपने सम्पूर्ण व्यवहारों में एक सचौटी अंगीकार करें ॥ सुनो तुम कि दियानत-दारी का यही प्रयोजन नहीं है कि उन कामों से दूर रहो कि जिन के प्रघट होने से मनुष्य को कैद हो जाती है वरन हमारी बुद्धि में उत्तम प्रयोजन सचौटी का यह है कि मनुष्य छोटे से छोटे और गुप्त से गुप्त धोखा देने से और ऐसे काम से कि जिस में निषिद्ध लाभ होय बचता रहे प्रयोजन यह है कि दियानतदारी आदि मूल सुंदर गुणों की है ॥ जिस नवीन अवस्था वाले की तरफ एक हिसाब में मूल से एक रुपया वा एक आना चला जावे तो मूल के मालूम होने के साथ ही उसे फेर दे या जिस नवीन अवस्था वाले को कि जब उसके मित्र उसे समझावे कि तू ऊपर के थोड़े से नफ़े को ले लिया

कर जिसके लेने की उसे आज्ञा नहीं है और वह अपने विश्वास से सब तरह निषेध करके कहे कि मैं थोड़ा सा भी धन अपने स्वामी या माता पिता की बिना आज्ञा नहीं छुड़ूँगा ऐसे नवीन अवस्था वालों को विश्वास और आनन्द का प्राप्त होना कुछ कठिन नहीं है ॥

और विपरीत इस के जो मनुष्य बुरे आचरण वाला हो कि जो उसके आगे कोई वस्तु गूठी और अयोम्य आवे उठा लेवे और अन्य मनुष्यों की सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तुओं को इसविचार से कि कोई मुझे न पकड़ेगा ले लेवे वह आदमी अपनी मृत्यु और नाश करने के पीछे पड़ा है ॥ नीचे लिखे हुये दृष्टान्त से ज्ञात होता है कि पक्की सचौटी से सब मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं और लाभ उस के संग रहता है ॥ और बड़े बड़े गुराणी और धनी भी उस से बहुत प्यार

करते हैं ॥

पहला दृष्टान्त

सच्ची

संक्षेप वर्णन

एक

गरीब

और सच्चे लड़के का

एक गरीब आदमी जिसका बड़ा कुटुंब था
तंगी और क्लेश से निर्वाह किया करता किसी
संयोग से उसका एक लड़का एक धनाढ्य जमीं
दार के यहां पश्चिम के देशों में नौकर हो गया
एक दिन उक्त ज़िमींदार ने उस लड़के को अच्छे
चलन के बदले अपनी मिरजई को जो बहुत
दिनों से उतार रक्की थी इनआम की रीति
से दी और उस लड़के ने भी मिरजई ले

कार सन्दूक में बुद्धिवाणी से रख दी दो वर्ष के
 बाद जब वह लड़का बड़ा हुआ उस मिरज़ई को
 निकाला तो क्या देखा कि दश अशर्फियाँ उसके
 अस्तर की तह से सी हुई रक्की हैं जिन को उस
 ज़िमींदार ने किसी प्रयोजन के लिये छुपा कर
 सिलवा रक्वा था तब कटफट वह ग़रीब साथ
 अपने लड़के के अशर्फियाँ ले कर उस ज़िमीं-
 दार के घर पहुँचा और सारा सम्न्धार उन के
 मिलने का कहा। ज़िमींदार उन के सच्चेपन
 से प्रसन्न हुआ जो कि वह आप भी सच्चा था
 इसलिये उसने अपने दो बेटों से सम्मति करके यह
 विचार किया कि इस लड़के को और उसके बाप को
 इन आम देना चाहिये। और इसी हेतु से उन
 को बुला कर कहा कि मैं तुम्हारी इस धर्म-ज्ञता
 से जो तुम से प्रघट हुई प्रसन्न हुआ। और
 शेख़सादी अपनी किताब मुलिस्तां के ७वें बाब की

उन्नीसवीं हिकायत में लिखते हैं कि धनाढ्य गरीबों के स्वजान ची हैं यदि उसमें यह क्रियादा होता कि धनाढ्य गरीबों और सच्चों के स्वजान ची हैं तो क्या अच्छा होता ॥ इसी नाटक के अनुसार मैं तुमको एक हजार रुपया इनआम देता हूँ ॥ चार हे लड़के तुम को मैं ने अपन स्वइलाके का अधिकार सौंपा इस कारण से कि मुझे तुम पर इस हेतु से कि तू ने अपनी स्वाभाविक सचौटी का मुझे अच्छा गुण दिखाया सम्पूर्ण भोगसा प्राप्त हो गया

दूसरा दृष्टान्त

सचौटी

एक दिन एक बालक को जिसकी अवस्था अनुमान से बारह वर्ष की होगी उरा के आ

ने सर्राफ़ की दूकान पर एक रुपया मुनाजे को
 भेजा जिस समय उसने रुपया मुनाया था
 अंधेरा हो गया था और सर्राफ़ ने रुपया लेकर
 बिना देखे माले पैसे दे दिये जब बालक घर पहुँचा
 तो काँट बतता है कि सर्राफ़ ने मूलकर एक अठनी
 लखल पैसे की जगह पैसे में दे दी ॥ प्रातः काल
 ही दूसरे दिन बालक सर्राफ़ की दूकान पर गया
 और कहने लगा कि आपने मुझे कल संध्याके
 समय मेरे रुपयेके यथार्थ पैसे नहीं दिये सर्राफ़
 बिनासुने इस बातके कि लड़का क्या कहता है
 सब बोलकर कहने लगा क्यों भिष्या बोलता है
 तू उक्त रात्रिको माल चुरा लेताया है और अब
 कहने आया है कि पूरे पैसे नहीं दिये ॥
 किसी संयोग से कोई भला आदमी
 उस मार्ग में चला जाता था
 यह बात सुन कर कहने लगा तुम लड़के को

विना उसकी बात सुने कूठ बोलने का दोष लगा
 ते हो तब वह भला आदमी लड़के से पूछने लगा
 कि रुपया भुजाने के विषय में हे बालक तू क्या
 कहता है

तब बालक बोला कि हे महाराज सर्राफ़ ने भूल
 से मुझे पैसों में ज़ियादत दाम दे दिये हैं और मैं
 उनको फेरने को आया हूँ तब वह भला आदमी
 सर्राफ़ से कहने लगा कि तुमने बड़ी भूल की
 और अपनी शर्वता को प्रघट किया

यह लड़का बड़ा सच्चा और धर्मज्ञ है
 दोष के देने की जगह इनआम के योग्य है
 सर्राफ़ बोला कि मुझे इस अपनी शीघ्रता पर
 बड़ा पश्चात्ताप है

और अब मैं उसका इस प्रकार बदला करूँ-
 गा कि लड़के से कहता हूँ कि मेरी इकान
 से जितनी चीज़ चाहे इनआम की रीति

से ले जाय तब वह भला आदमी बोला कि
 मैं इस लड़के को जब कुछ और बड़ा हो जाय-
 गा अवश्य अपने परगने में एक नौकरी दूँगा
 क्योंकि मेरी तरफ बहुत से मुर्हरि और मुन्शी
 चतुर और बुद्धिमान हैं परंतु सच्चे और धर्मज्ञ
 बहुत छोड़े हैं
 मेरी बुद्धि में सचौटी सहस्र दर्जे संसार में
 चतुर्गुण से श्रेष्ठ है और यह कवन कवि का
 सत्य है कि सच्चे आदमी सब जगत के मनुष्यों
 से उत्तम हैं

छठा पाठ द्रव्य का र्वर्च करना

परिमित व्यय का मार्ग और मन के मारने के
 प्रति विचार करो जो रुपया बच सके अवश्य
 है कि उस को एक महाजन के पास वा

किसी उपाय से धरोहर रखते जाओ जब तक वह इतना बढ़ जाय कि जो लाभ कारक एक काम के स्वर्च के लिये बहुत हो जाय ॥

परन्तु विचारना इस बात का अनुमान से दूर है कि कितने रुपये आना पाई करके थुका व्यवस्था वाले व्यर्थ स्वर्च में नाश कर देते हैं परन्तु निश्चय है कि उनके हाथ से इस छुट्टे मत्तार्थ में बड़ी बड़ी रकमों से बहुत बढ़कर उठ गया है और बहुधा इस प्रकार से उठा है कि जिस से कुछ लाभ प्राप्त न हो ॥ संस्मरणार्थ आदर्शियों को यह बात अवश्य स्मरण करके के योग्य है कि जो अपनी सब कमाई को स्वर्च कर दें और बचाव न जावें तो कठिन है कि उनकी वर्तमान दशा से कभी मन्ती दशा हो जाय यद्यपि उन के लाभ के संयोग आगे दृष्टि के घट होय परन्तु दरिद्रता की दशा में उनको उन संयोगों से कुछ लाभ न होगा वरन सं

भव है कि ऐसा संयोग हो कि जब किसी अधि-
कार की अभिलाषा करना चाहते हों और ज़ादे
स्वस्थ करने के कारण द्रव्य उन के पास न हो
जिस से कुर्च मार्ग का किया जाय वा कोई
आवश्यकता के वस्तु वन पाये जायँ

सातवाँ पाठ

समय का

बचाव और अपने स्वभाव की

दृष्टि के वरीन में

जिस प्रकार रुपये खर्च करने में परिमित व्यय
का मार्ग प्रशंसा के योग्य है उसी प्रकार समय
के खर्च करने में साहस के योग्य कि समय ही मुख्य
माल और अमोल्य धन है ॥ और यह बात

ध्यान करने के योग्य है कि बहुधा युवा अवस्था वाले अपने अवकाश और वेकारीके समय को केवल रथा ही नहीं खोते बल्कि नाश करते हैं क्योंकि बहुधा वे लोग व्यर्थ बकवाद आलस्य और काहली में दिन व्यतीत करते हैं सिवाय इस के बाज़ार में रथा फिरना वाँवैठे हुये मकरी मारना क्या भला है यदि इस प्रकार की अवस्था व्यतीत करने के बदले युवा अवस्था वाले अपने अपने अवकाश के समय को परिश्रम वा विद्या प्राप्त करने में र्वरच करते तो क्या ही अच्छा होता और जो मनुष्य इस उपदेश से और अपनी भाग्यवानी से इन कामों में तत्पर होते उन्हें क्या क्या अच्छे लाभ मिलते प्रयोजन यह है कि अवकाश के समय निकम्मा बैठना बड़ी मूर्खता है ॥

इतिहास कारकों का इस बात पर संमत है कि जो जो

राजा इस जगत में प्रतिष्ठित हुये वे सम्पूर्ण
 अपने अवकाश के समय को विद्या प्राप्त करने
 में खर्च करते थे इसी कारण से सुलेमान बेटे
 दारुद के और अलफ्रेड बादशाह इंग्लिस्तान
 और शार्लमेन बादशाह फ्रान्स और जर्मनी
 और हारू रसीद खलीफा बुगदाद और अकबर
 बादशाह हिन्दुस्तान में नामी हो गये
 अपनी बृद्धि के लिये अपने आप विचारना चा-
 हिये कि हर एक अहलकार को अवश्य कर्त्तव्य
 है कि अत्यन्त मिहनत और परिश्रम से अपने
 संबंधी काम को पूर्ण करे
 इस बात से तुम निस्संदेह बोध रखते हो कि जो
 मनुष्य सामर्थ्य भर अपने संबंधी काम में मिहनत
 और परिश्रम करता है वह अवश्य बड़ी प्रतिष्ठा
 और विख्याति प्राप्त करता है जो कछु तुम को
 सीखना हो उसको अच्छे प्रकार सीखो और कोइ

कठिन बात आगे आ जाय तो उस से निरास न हो
 और न अपने परिश्रम के फलों से आश्चर्यवान्
 हो ॥ मौन हो के विना पाषाण प्रकट करे बड़े
 परिश्रम से काम में लगे रहो और सदैव अपने
 स्वभाव की वृद्धि के आशावान् रह कर परिश्रम
 उठने की प्रकृति ग्रहण करो कि जिस से परिश्रम
 में तुम्हारे सुजश का प्रारम्भ दृढ़ रहे ॥
 अवश्य है कि जो तुम इस सुखम मार्ग पर दृढ़ता
 से परिश्रम किये जाओगे तो तुम सुखामिलायी
 और दुर्जन और दुर्व्यसनी आत्मियों से
 अवश्य अच्छे हो जाओगे

आठवाँ पाठ
 पशुओं पर
 दया करना

जगत में कोई कोई मनुष्य जो पशुओं पर दया नहीं करते कुछ आश्चर्य नहीं कि वे अपनी समान जातियों पर भी निर्दयीपन करें या शूनेः शूनेः किसी दिन बहुत बुरे काम के करनेवाले हों ॥

कोठारता और निर्दयीपन के समय इतना विवासा चाहिये कि जो कोई हमारा स्वामी इसी प्रकार हम पर भी अन्याय और उपद्रव करे तो कितना असह्य जान पड़ेगा सिवाय इस के जो कोई अपने सुरब वा रुचि के लिये बेल वा घोड़ा आदि रखे तो उसे उचित है कि उनका अच्छी तरह पालन पोषण करे और अच्छे स्थानों में रखे ॥ जिन्होंने अरबवानुस्सफ़ा पढ़ी है उन को यह बात मालूम होगी कि जो पशु पक्षी बोल सकते तो आदमियों को

कैसे कैसे उलाहने देते ॥

बड़े निर्दयीपन की बात है कि जब घोड़ा वा

गदहा बुढ़ापे या थक जाने या भूख के कारणा
 से हलके हलके चले तो उसको केड़े मारें ॥
 हिन्दुस्तान में गदहों और बैलों पर बड़े २ अन्याय
 होते हैं और उन के देह-चोटों और ताड़नाओं से
 घायल हो जाते हैं इसी कारणा सन १८६० ईसवी
 में एक कानून पशुओं के दुःख-देने के निषेध में
 प्रवृत्त हुआ है कि जिस से कोई पशुओं पर अ-
 न्याय नहीं कर सकता छोटे पशुओं पर दया और
 कृपा करना न्याय का आदि मूल है क्योंकि वे
 विचारे थोड़े दिन जी कर जीवन से रहित होते हैं
 विचारे कि उन पशुओं पर दया न करना बामार
 देना कैसा अन्याय है और जो हिन्दू लोग
 कोई २ पशुओं पर अपने मत के अनुकूल
 वा इस श्रद्धा के कारणा से कि उनमें किसी २
 आदमियों का जीव पीछे मृत्यु के आजाता है
 पालन वा पूजन करते हैं तो यह काम उन

का दयालुता और अनुग्रह में नहीं गिना जाता मुख्य प्रयोजन यह है कि जैसे अच्छे राजा अपनी प्रजा के साथ दया करते हैं उसी प्रकार मनुष्यों को भी पशुओं के साथ दया और कृपा से वर्तना चाहिये

नवां पाठ संबंधियों के साथ उप कार करने के वर्णन में

साधारण अपने संबंधियों के साथ और अवश्य करके अपने माता पिता और भाई बहिनों के साथ हमको प्रीति और दया करनी उचित है ॥ किसलिये कि हमारे माता

पिता ने हमको भोजन वस्त्र से रक्षित किया
 और ऐसे समय में हमारी रक्षा की कि जब हम
 बालक थे और अत्यंत पराधीन थे
 यदि दया माता पिता की हमारी उस दशा में न
 होती तो अवश्य लेश पाकर मर जाते इस
 कारण यह बात सत्य और अवश्य कर्त्तव्य है
 कि हम उनके उपकारके कृतज्ञ हों और
 उनके साथ श्रुति करें और अपनी सामर्थ्य
 भर उनकी सेवा में तत्पर रहें और केवल
 उनकी आज्ञा पालन करने और उनके
 वचनकी पालना में साथ इस प्रतिज्ञा के
 कि वह आज्ञा उचित हो अपनी भाग्यवानी

सममें ॥

पुनः

बालकों को अपने भाई बहिनों के साथ

सदैव प्रीति करनी चाहिये क्योंकि उन्होंने ने उनके साथ शिक्षा पाई है साथ ही भोजन किया साथ ही खेले और माता पिता की प्रीति करने में भागी रहें ॥ और जो बालक ऐसा करेंगे तो जाना जायगा कि ये सुन्दर स्वभाव वाले हैं और सब के चित्त में प्रीति के योग्य हैं और जो आपस में जुटे हो जायेंगे और भगड़ा करेंगे तो उन के चाल चलन प्रत्येक मनुष्य के चित्त में असह्य और बुरे जाने जायेंगे और सत्स्वभाव वाले उन से दूर रहेंगे ॥

और जो भाई बहिन आपस में प्रीति और मित्रताई रखते हैं तो यह प्रीति उन ही युवा अवस्था के समय कारण उन की अत्यन्त कुशलता की होगी इसी कारण उनको उचित है कि बाल अवस्था के समय आपस में प्रीति करें और एक दूसरे की खबर

लेते हैं

दशमां पाठ परिश्रम

कृतज्ञता और उपकार उस जगदीश्वर का
कि जिस ने तुच्छ मनुष्यके लिये पृथिवी को
इस प्रकारकी वस्तुओंके उत्पत्ति के योग्य किया
कि जिस पर उसका निर्वाह और सब प्रकार
का आनंद प्राप्त है

परंतु कोई २ वस्तु हमारी आवश्यकता की बिना
परिश्रम प्राप्त नहीं हो सकती

दृष्टान्त १

देखिये कि अन्न बोना और काटना और
धातुका खोदना और उससे औजार बनाना

का कातना और फिर उस से वस्त्र बनाना यह काम तो अवश्य और उचित है ॥ इसी प्रकार परिश्रम से एक एक मनुष्य को वरन हर जाति के समुदाय को धन्य और संपत्ति प्राप्त होती है विचार की जगह है कि जा किसी मनुष्य की यह इच्छा हो कि मुझे खाना वा कपड़ा वा और कोई वस्तु लाभ कारक मन की रीत के योग्य मिले तो उसे उचित है कि उन वस्तुओं के प्राप्त करने में परिश्रम उठाने वाला हो ॥ सिवाय उन लोगों के जो निर्बल प्रकृति होने के कारण से परिश्रम के योग्य नहीं वा आप अपनी कमाई वा वपौती से ऐसा धनाढ्य हो उन्हें और कमाने की इच्छा न हो ॥ जैसा कि सन् १८६० ई० का वर्णित है कि जब रूस वाले देहात के काल के हेतु से मरने लगे तब सरकार ने यह उपाय किया कि जो मनुष्य परिश्रम के योग्य हैं वे सड़क और नहर के काम में

और कुछ आटा मजूरी की रीति से उन को मिला
करे और जो देह के निर्बल होने के कारण से
परिश्रम के योग्य नहीं उन को नैत दुकान के
जाने

दृष्टान्त २

जो मनुष्य परिश्रम और विद्या प्राप्त करने से अपनी
बुद्धि करना नहीं जानते और जंगल में घूमते
और आरेबेट में तपस्वरहते हैं उन को जंगली
आदमी कहते हैं जैसे कि अमेरिका और का-
फिरिस्तान के रहने वाले और आस्ट्रेलिया के
आदि निवासियों की यही दशा है और उन का
निर्वाह का मार्ग अत्यंत बिगड़ा हुआ और नीच है
क्योंकि उनकी खुराक वे स्वाद और कसत्र बुरे हैं काल
के समय में उनको सिवाय भूरे मरजाले के कुछ
उपाय नहीं जंगली आदमियों के देश में यह

रखा बी है कि अटकल से एक मील वर्ग में एक आदमी की आवादी मिलेगी ॥ विपरीत इस के जो मनुष्य परिश्रमी होते हैं उन की दशा बहुत सुंदर है क्योंकि वे पोहे रखते खेती करते और अपने रहने के लिये सुन्दर स्थान बनाते हैं व्यवहार और लेन देन करते हैं मुख्य यह है कि यह लेषा जंगली मनुष्यों की अपेक्षा आनन्द में रहते हैं ॥

प्रयोजन यह है कि मनुष्य जिस प्रकार परिश्रम करता है उसी प्रकार सुख भोगता है जैसा कि इंग्लिस्तान जर्मनी स्विटजरलैंड फ्रांस और हालैंड वाले जो सब कामों से बढकर परिश्रम उद्योग वाले हैं इसी कारण सब लेषों से भले प्रकार सदैव सुख में रहते हैं इनके देशों में प्रत्येक मील में १०० से लेकर ३०० तक आदमियों की आवादी है इस से दृढ होता है कि जिस देश के मनुष्य बड़े परिश्रमी होते हैं उसमें

उन देशों की अपेक्षा जहाँ लोग परिश्रमी नहीं होते बहुत बसती होती हैं और वहाँ के रहने वाले बहुत सुख आनंद से भी रहते हैं जिस प्रकार संपूर्ण जातों की वृद्धि और मलाई की दशा परिश्रम के हेतु से वर्णित हुई उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की दशा भी अवश्य बरीन करने के योग्य है ॥

क्योंकि जो मनुष्य परिश्रम और रहल नहीं करता या किसी अपने जातिवाले की सहायता नहीं करता उसके क्लेश में दिवस व्यतीत होते हैं परन्तु परिश्रमी आदमी को कुछ न कुछ आजीविका और सुख मिलता है

साधारण यह है कि जिस प्रकार आदमी परिश्रम और सचौरी ग्रहण करेंगे उसी प्रकार अपने कार्य व्यवहार में भाग्यवान् होंगे ॥ और जो आलसी और कूठे होंगे वैसे ही निमग्न होंगे ॥ जब ईश्वर की दृष्टि में यह प्रकाश हुआ कि संपूर्ण उत्तम वस्तु

मनुष्यों को परिश्रम से प्राप्त हों उसी समय यह भी नियत हो गया था कि परिश्रम भी मनुष्योंके लिये अवश्य लाभकारक सुख और आनन्द का कारण हो ॥ क्योंकि बिना पाने सुख के कोई आदमी जिरेगी नहीं रह सकता ॥ इसलिये उचित है कि कोई काम मानसी वा देह का हम किया करें और यह प्रयोजन इसलिये नहीं है कि मन के आनन्दके लिये कोई समय अवशेष नहीं रहे वरन विपरीत इसके थोड़ा बहुत सुख भी करना अवश्य है क्योंकि किसी काममें बहुत तत्पर रहने से देह का बल जाता रहता है और रोग पैदा हो जाता है

दृष्टान्त तीसरा कहानी

एक किसान और उसके पुत्रों की ॥

तावों के मोल लेने में खरब किया करता संपूर्ण
 कार्य व्यवहार में आलस्य से दूर रहता और
 अत्यंत परिमित व्यय और समय के कचाव से जीव-
 न को व्यतीत करता जब सत्रह वर्ष का हुआ तब
 फिलिडे लफिया को जो उत्तर अमेरिका का दूसरा नगर
 है चला गया वहाँ कुछ समय तक कैमर नामी छोपे
 वालों के साथ काम करता रहा उस समय में अपने
 परिश्रम और आपसे अपनी विलता की वृद्धि करने
 से इबारात के लिरवो पर्वत में अच्छा ज्ञान हो गया
 संयोग से एक दिन उस के साथ की लिरवी हुई चिन्नी
 वहाँ के सूबे के दरबान में आई उसे देख कर वह बहुत
 प्रसन्न हुआ और फ्रेंकिलिन को रोज कर अपने
 घर बुलवाया ॥

थोड़े दिन पीछे फ्रेंकिलिन अपनी वृद्धि के लिये
 लंदन को चला गया और थोड़े दिनों तक वहाँ
 छापने वालों के साथ काम करता रहा कारखा

निमें और काम कर जे वाले तो अपने अवकाश
के समय और छुट्टी में शराब पीये के अपने शिर
को विकल करते थे

वहाँ यह भले स्वभाव वाला संयमी सूक्ष्म आहारी
निरोग रहता और अपनी तनखाह में से कुछ
स्पया बचाया करता ॥

बीस २० वर्ष की अवस्था में अत्यंत वृद्धि प्राप्त करके
फिर शहर फिलेडे लफिया को लौटा और थोड़े
दिनों के पीछे वहाँ कैसर के साथ साकी हो गया
वेंजमिन ऐसा परिश्रमी था कि प्रति दिन के
कार्य्य व्यवहार करलेने के

सिवाय एक दो पत्र छापे का आप अपने हाथ
से तैयार कर लेता

और उस के पढ़ोसी भी उसे परिश्रमी सच्चा
और सत्कर्मि सत् स्वभाव देख कर

काम दिया करते यहाँ तक कि वह सहज में ध-

नाज्य हो गया ॥ उन्हीं दिनों उस ने एक अख-
 बार जिसमें अति उत्तम आशय सत्त्वभाव के
 सिंघार और अंतक की शिक्षा करने वाले लिखे जाते
 थे प्रकृत किया और यह प्रसिद्ध पत्र दूर दूर तक
 प्रसिद्ध हो गया और इस से बहुत सालों उस को
 प्राप्त हुआ परंतु ऐसी धनाढ्यता होने पर भी वह
 सामान्य वस्त्र पहना करता और परिमित व्यय से
 चला करता वरन वज्र समय एक पहिये की गाड़ी
 को कि जिसे हाथ से आदमी चला लेते हैं उन
 कागाजों से भी हुई जिनको वह छोपे खाने के
 लिये मोल लेता था अपने आप रींचा करता
 पीछे इस के उसने कागाज बेचने की दुकान
 करली और एक कुतुब खाना खोला
 और एक पत्रा जिसमें अनेक तरह के और
 प्रकार प्रकार के उपदेश का वर्णन था
 (गरीब रिचार्ड) के नाम से रखा ॥ परन्तु इन

सब कामों के प्रबंध करने पर भी अपनी विद्या की दृष्टि में अत्यंत समय का व्यय करता

तीस ३० वर्ष की अवस्था में अपने शहर के लोगों में ऐसे बड़े पद का अधिकारी हुआ कि अपनी जाति की सभा का सेक्रेटरी नियत हुआ और दूसरे वर्ष डिप्टी पोस्ट मास्टर हो गया

इसके उपरांत उसने इस विचार से कि जो पहुंच समझ की और योष्यता सच्चिदानंद परमेश्वर ने अपनी कृपा से मुझे दी है उससे कुछ लाभ ईश्वर तो बहुत उचित है इसी कारण उसने एक सभा वास्ते प्रकट करने हिकमत विद्या और २ विद्याओं के नियत की ॥ और एक बड़ी पाठ शाला वास्ते शिक्षा वालकों के प्रति की और घरों के अग्नि दग्ध से बचने के लिये एक सभा नियत किया ॥

५ के स्वे हुये सब जीवों को पहुंचाया जावे

जिदान जितनी कचहरी स्वे फिले डेल फियामे

नियत किये गये थे बहुधा उसीके कारण से
प्रबंधित थे ॥

पीछे इस के हिकमत विद्या के निष्प्रव्य करने
की तर्फ ध्यान करने वाला हुआ और सन्
१७५२ ई० में पतंग के सहारे से विजली मेघ
की गर्ज से उतारी और इस से पहले उस ने
यह दृढ़ किया कि विजली और सैबाल कह-
वाई का मूल वास्तव में एक है
इसके पैदा करने से फिलेडे डफिया के रूपे
रवाने वालों का नाम सारे यूरोप में विख्यात
हो गया ॥ जिस समय में कि वह बूढ़ा हो गया
था उस समय आमेरिका के सूबों में और उस
के सदैव के रहने वालों के देश (अर्थात् इंग्लिस्तान)
में लड़ाई हो रही थी जिस का फल यह हुआ
कि आमेरिका के सूबे खुद खुदतार हो गये
इस लड़ाई में फ्रेंकिलिन एक बड़ा उद्देदार था

और थोड़े वर्ष तक अमेरिका के रहने वालों की तरफ से एलची होकर बादशाह फ्रांस के दरवार में उपस्थित रहा वहाँ उसे यह पद पवित्र पुस्तक का स्मरण हुआ जिसे उसका पिता वारं वार पढ़ता और स्मरण करता था जो मनुष्य अपने प्रबंधित कार्य व्यवहार में चतुर है वह बादशाहों की राज सभामें अवश्य खड़ा होगा ॥ अगले समय पूर्व के देशों में और जहाँ हाल तक यह दस्तर चला आता था कि राज सभा में खड़ा होना महान् प्रतिष्ठा का चिन्ह जाना जाता था और यूरोप में आज कल्ह भी राज सभा में बैठना अधिक प्रतिष्ठा का चिन्ह जाना जाता है तात्पर्य इस वर्णन से यह है कि यद्यपि फ्रेंकिलिन एक गरीब आदमी का लड़का था परंतु तो भी उसने बड़े द्रव्य और प्रतिष्ठा के साथ जो बहुधा मनुष्यों

को नहीं प्राप्त होगी अपनी अवस्था व्यतीत की
जब एक आदमी संसार में भले २ शोभाके काम
कर जाय तो और लोगों को अपने चित्त से अक्षय
उचित है कि उन कारणों को विचारें जिनका नि-
श्चय फ्रेंकिलिन के विषय से होता है और उसके
रचित ग्रंथों से भी इसी प्रकार मिलता है
वह अपनी किताबों में लिखता है कि धन मर्दा
ऐसा खुला है जैसे बाजार का मर्दा ॥
और वह केवल दो बातों पर नियत है एक तो परि-
श्रम दूसरे परिमित व्यय अर्थात् समय और
धन को निष्फल मत करो और दोनों को भले
प्रकार काम में लाओ ॥ बिना परिश्रम और
परिमित व्यय के कोई काम नहीं हो सकता
और कौन सा काम है कि जो इनके कारण
से नहीं हो सकता

पीछे परिश्रम और परिमित व्यय के कोई

वस्तु नवीन अवस्था वाले के लिये वृद्धि प्राप्ति करने
 को ऐसी लाभकारक नहीं है जैसा कि चौकसी
 और सचोटी संपूर्ण कामों में उसके काम आती
 हैं ॥ वह लिखता है कि परिश्रम भाग्यवती का
 आदि मूल है और महान् परमेश्वर ने सम्पूर्ण
 वस्तु परिश्रम को रूपा की है जब तुम को कोई
 काम दिया जाय तो उचित है कि उस काम को उसी
 दिन पूरा कर लो क्यों कि क्या जाने कल को कौन सा
 विघ्न आगे आ जाय ॥ और अगर यह समझो
 कि जब तुम एक के नौकर हो और वह तुम को
 निकम्मा वैठा हुआ देख ले तब तुम को
 कितनी लज्जा की बात है कि जब तुम आप अपने
 को निकम्मा वैठा देखो

अथारह वां

पाठ

अपना काम आप करने और स्वयंपालन करने के वर्णन में

प्रघट में ऐसा प्रतीत होता है कि संकेत सृष्टि
कर्ता परमेश्वर का सृष्टि के समय यह था
कि सब मनुष्य उन संबंधों से कि जो महान्
परमेश्वर ने उस के स्वभाव में रचे हैं

इस जगत में अज्ञान स्वयंपालन और दृष्टि करें
इसी कारण

हम को औरों का भोजन वस्त्र वा कोई

और वांछित वस्तु के लिये

आश्रय करना अयोग्य है

और हम को आज्ञा हुई है कि

परिश्रम करें जिस से यह सब वस्तु प्राप्त हो सक-
ती हैं ॥ निस्संदेह सब मनुष्यों की आजीविका

और आनंद की सामग्री इसी प्रकार कृपा हुई
 है और कोई प्रबंध इनका इस से श्रेष्ठ नहीं
 हुआ है ॥ इसी कारण नवीन अवस्था वालों को
 यह काम अवश्य बोध्य है कि वे बालकपन से
 अपने आप को इस काम का स्वाभाविक करें
 कि बहुत कम अपनी आवश्यकता के लिये दूसरे
 का भरोसा करें जैसा कि नवीन अवस्था वालों
 को उचित है कि यह बातें सीख लें अर्थात् अपने
 सूत्र आप पहना करें और अपना भोजन भी
 अपने हाथ से करें और प्रतीक्षा करने वाले न
 हों कि उनके नौकर ये काम किया करें और
 भी उचित है कि पढ़ना लिखना हिसाब करना
 बहुत शीघ्र सीख लें और अपने चिन्तको विद्यते
 पूरी कर लें त्यों कि गगत में निकल कर अपनी
 रोटी कमाने के योग्य हो जावें ॥

यदि भक्तकाण्ठ मिले तो किसी सुखा समय में चौकस

हो कर किसी गुराण वा व्योपार वा उद्यम को सीख लें जो कि आगे काम आवेँ

जो मनुष्य बहुधा अपना काम आप किया करते हैं और अपने ही परिश्रम और सोच विचार से अपनी आजीविका पैदा करते हैं तो निःसंदेह दूसरे आदमी उन को अवश्य प्यारा जानेंगे और उन की प्रतिष्ठा करेंगे

उन लोगों के लिये सचमुच बड़ी लज्जा की बात है कि जिनको परमेश्वर ने हाथ परिश्रम के लिये मन सोच विचार के लिये कृपा करके दिया है और वह आलसी और अज्ञात पढ़े हुये उन लोगों का कि जो अपने कार्य व्यवहारमें तत्पर हैं वास्ते प्राप्त करने अपने मनो वांछित वस्तुओं के मुंह तक करे जिन वस्तुओं को वह आप ही अपने परिश्रम से यदि उद्योग करते तो प्राप्त कर लेते प्रयोजन यह है कि हम को अपने काम में

दूसरों के आधीन नहीं रहना चाहिये किसलिये कि बहुत कम और आदमी से अपना काम उस प्रकार प्रबंधित होता है जैसा कि हम आप उस को प्रबंधित कर सकते हैं

वरन बहुत समय अन्य आदमी से दूसरे मनुष्य का काम अच्छी रीति से समाप्त होता है कैसे कि अपना ही काम उन से नहीं हो सकता है

इसलिये कभी हम को उचित नहीं है कि जिस काम को हम आप कर सकते हों उसे दूसरे से करा दें

इसी वास्ते बुद्धिवानों की कहावत है कि आप काज महा काज ॥

दृशान्त

पाँचवाँ

कि गावधान रहना जो वृत्तांत मेरे पीछे हुआ
 करे उस की चौकसी रखना जब चकावक संध्या
 के समय अपने घर आई तब वच्चे ने कहा कि
 कल किसान तुम्हारे पीछे यहाँ आया था और
 अपने खेत काटने के लिये अपने पड़ोसियों से
 कहता था ॥ चकावक बोली अच्छा अभी कुछ
 भय की जगह नहीं है ॥ दूसरे दिन चकावक
 अपने स्थान पर आई तो बच्चे बोले कि आज भी
 कल ही का सा वृत्तांत वही बोली कि बहुत
 अच्छा अभी कुछ तुमको सोच की जगह नहीं है
 तीसरे दिन फिर प्रातः काल वे सोच खाने के उपा-
 य में चली गई परन्तु जब संध्या के समय अपने
 घर आई तो बच्चे बोले कि कल किसान और
 उस का लड़का आप खेत काटने को आवेंगे
 दूरत सुनते ही इस बात के चकावक बोले कि
 हाँ अब डर की जगह है क्योंकि जब तक

किसान अपने पड़ोसियों और मित्रों की सहाय-
ता अपने काममें चाहता था तब तक उस की
ओर से मुझे ध्यान भी न था परन्तु जब वह
आप कह चुका है कि मैं अपने खेत को आप
काटूंगा तो अवश्य यह बात प्रकट होगी

बारह वाँ

पाठ

ओसान

अपने आप को जानबूझ कर शंका की जगह
में रखना अर्बताई है परन्तु यदि किसी जोग से
कोई शंका आगे आजाय तो उचित है कि
वीरता करके दृढ़ता और ठारस से उसे

दूर करे ॥ क्योंकि हम कैसे ही सावधान हो पांतु यह संभव नहीं है कि किसी न किसी समय अपनी अवस्था में कोई शंका न आवे ॥

संभव है कि हमारे वस्त्रों में वा जिस स्थान में कि हम रहते हैं आग ही लग जावे वा हम जल ही में गिर पड़े वा जिस गाड़ी में हम सवार हों उसका घोंडा ही हाथी आदि से बिचक कर गाड़ी को लेभागे ऐसी बिपत्तियों में बहुत से हमारे लोगों ने चोट खाई है वरन प्राण तक जात रहे हैं ॥

पांतु हम ऐसे अवसरों पर अवसान और चौकसी से ऐसा उचित विचार करें कि जिस से अपने आप को रक्षित कर सकें तो हानि और नुकसान अवश्य हम को कम पहुँचेगा ॥

शंका की दशा में कोई २ मनुष्यों के उरके मोर ऐसे औसान जात रहते हैं कि उन से अपने कबाव के लिये कुछ उपाय नहीं हो सकता और

इसी कारण से वह शंका इस प्रकार बढ़ जाती है कि जिससे वन को अत्यन्त कष्ट पहुँचता है वामान जाते हैं और ऐसे समय में वे आदमी कि जिनके आसन धँसकर हते हैं

संभव है कि उससे बच जावें ॥ शंकाके सम्भृगा स्थानों पर अविमूल यह है कि ओखान ठीकरके वरन ऐसे समयमें उचित है कि अपनेमें ऐसी दृष्टि और चतुराई रखें कि उसहानिके दूर करनेके तात्पर्य उपाय कर सकें

इसी यत्नका नाम ओखन का दृष्टता है और यही यत्न स्वदेव प्रशंसाके योग्य है

इसीलिये जब किसी आदमी के वस्त्र में आग लग जाय तो उसे और लोगोंसे सहायता लेके लिये इधर उधर भागना नही चाहिये क्योंकि जब वह खड़ा होगा वामागे गा तो उसके वस्त्र अति शीघ्र हो जायंगे और देह भी जल जायगी

वरुन उत्तम इससे यह है कि नमी नपर लेट
जाय और खूब लोटता फिर किसलिये कि इस
कारण से आग जल दी से न भड़केगी ॥

यदि किसी प्रकार संभव हो तो दरी वा किसी भारी
ऊनी लिहाफ को अपने शरीर पर खूब लपेट
ले इस उपाय से उसी समय बहुत धाज्वाला
शीत लहो जाती है

जब घर में आग लग जावे और धुनों सब में भर
जावे तो वहाँ खड़े रहना उचित नहीं क्योंकि
उसमें धुब से छुटकर कष्ट पहुँचने की शंका है
इसलिये ठोस यह है कि हाथों और घुटनों के
बल बलें क्योंकि स्वर वायु उस समय में
धरातल के अतल्लो सनीप होती है ॥ और
इसी प्रकार यदि कोई आदमी जिसे तेरना
नहीं था तो हाथों में गिर पड़े तो उस पा
रों में हाथों में गिरना उचित नहीं है
किसलिये कि इस स्वरत में शी धूरी डूब

जायगा वरन उसे कर्तव्य है कि निश्चल होकर
 अपना स्वास गे करहे जिससे अवश्य उसका
 शरीर पानीसे हलका होकर जलके ऊपर तैर
 आवेगा और यदि अपने शरीरको बहुत नहीं
 हिलावेगा तो तैरतारहेगा
 और इसी प्रकार यदि कोई आदमी किसी हलकी
 गाड़ीमें सवार हो और घोड़ा उसका बिचक कर
 गाड़ीले भागे तो उचित नहीं है कि अपने आप
 को जल दी करके उसमें से गिरदे वरन ऐसे समय
 में कर्तव्य है कि अपनी सामर्थ्य भर औतान
 से इतनी देर उसमें बैठकर यह सोचले कि अब
 कौनसा उपाय करना अवश्य है यदि घोड़ा इत
 ने समय में भागते २ ठहर जायतो आनंद है
 कोई हानि किसी प्रकार की नहीं पहुंचेगी
 और यदि सावधानीकी रीतिसे ज्ञात होजाय इस
 गाड़ीमें से उतरना ही योग्य है तो पीछे से खव

चौकसी करके उतर पड़े ॥ यह बात स्मरण
 करने के योग्य है कि जब कोई गाड़ी में सवार
 जाता है तो उसमें भी एक कशिपु चलने की
 वरा वर चलने के भर जाती है जिसको वह
 दूर नहीं कर सकता इसलिये उचित है कि
 अलग होने के समय चलती हुई गाड़ी में से
 उस मार्ग की ओर मन्मथ उतरे जिसे मार्ग में
 गाड़ी चली जाती है इस उपाय से पृथ्वी पर निरने
 से वचै जैसे कि इस काल के दृढ़ करने में अकबर
 और वीर बल की कहानी बरी बन करे जाती है ॥
 एक दिन अकबर बादशाह ने अपने मन्त्री वीर
 बल से पूछा कि युद्ध के समय नैवम कान्ध आता
 है उसने प्रार्थना की कि हे बादशाह और सान का
 मन्त्राता है बादशाह ने कहा कि शास्त्र और ब
 ल का नाम क्यों नहीं लेता वीर बल ने कहा कि
 महाराज यदि और सान नष्ट हो जाय तो शास्त्र
 और बल किस काम आवे ॥ समाप्त ॥

